



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]

नई दिल्ली, बुद्धवार, जनवरी 3, 1979/पौष 13, 1900

No. 5]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

1 2 3 4

(वाणिज्य विभाग)

2. 10

अध्याय-10

पैरा-64 में पढ़ने वाक्य के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

आयात व्यापार विनियम

सार्वजनिक सूचना संख्या आई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979

विषय :—आयात नीति, 1978-79

(मि० सं० 3/15/78) : समय-समय पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या-22-आईटीसी (पीएन)/78, दिनांक 3 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात नीति, 1978-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे दिए उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात नीति	संदर्भ	संशोधन
		1978-79 की पृष्ठ संख्या	
1	2	3	4
1.	10	अध्याय-10 पैरा-62	(1) प्रथम वाक्य के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, "और परिशिष्ट-9"। (2) तीसरे वाक्य के शब्द "और पैरा 73 में उल्लिखित आयात करने वाले अभि-करण" हटाए जाएंगे।

3. 13

अध्याय-16 पैरा-87

"(इ) प्रशिक्षण सहाय" के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—  
"(4) सेप ग्लोब्स"

4. 13

अध्याय-16 पैरा-89

उप-पैरा (5) में प्रदर्शित अंक "2,000" के स्थान पर अंक "200" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1	2	3	4	1	2	3	4
5. 14	अध्याय-16 पैरा-95	अन्त में यह वाक्य जोड़ा जाएगा :— “सम्बन्धित एयर लाइन्स ऐसे प्रत्येक माल की निकासी के सान दिनों के भीतर महा- निदेशक, नगरिक उड्डयन, नई दिल्ली को आयातित मयों के व्यौरे, उनको मात्रा और लागत-सीमा भाड़ा मूल्य सूचित करेंगे, और उनका सूची/ उपयोगिता के विषय में उनकी इच्छानुसार एक रजिस्टर तैयार करेंगे। ये सभी किसी भी समय मुख्य नियंत्रक, आयात- निर्यात द्वारा निरीक्षण के लिए बुले रहेंगे।		8. 16	अध्याय-18 पैरा-125	द्वितीय वाक्य के प्रारम्भ में निम्न- लिखित शब्द जोड़े जाएंगे :— “पैरा-175-क और 176 में निहित मामलों के प्रति- रिक्त।”	
6. 15	अध्याय-17	निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— “112-क निम्नलिखित के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी परमिट भी जारी किए जाएंगे। (क) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तकनीकी उपकरणों के लिखित-बाव-विषादों, सेवा अनुदेशों ग्रन्थ-सूचियों के भागों आदि को शामिल करते हुए वाइडियो टेप, और (ख) वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) और पूंजीगत माल के विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी मयों के खरीद आवेशों के मद्दे अनुदेशों के लिए अपेक्षित प्रोग्राम सोफ्टवेयर सहित कंप्यूटर टेप, ट्रबल शूटिंग डायग्नोस्टिक्स, अन्य डेटा प्रोसेसिंग जानकारी, सेवा अनुदेश आदि।		9. 16	अध्याय-18 पैरा-126	इस पैरा के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :— “तबनुसार, इस नीति के अन्तर्गत 1-4-1978 को अथवा इसके पश्चात् किए गए निर्यात के मद्दे जारी किए गए थार०ई०पी० लाइसेंस के अन्तर्गत माल की निकासी की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा हस्तान्तरि द्वारा अपने नाम में लाइसेंस के हस्तांतरण के केवल एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर होगी।”	
7. 16	अध्याय-18	पैरा 123 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा :— “123-क आयात प्रति- पूर्ति लाइसेंस, लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत तक उपभोग्य माल के आयात के लिए और इसके कुल मूल्य के भीतर भी वैध होगा। संबंधित लाइसेंस आवेदन-पत्र निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त उपभोग्य माल की सूची के साथ होना चाहिए, जैसा कि उस उत्पाद के विनिर्माता द्वारा घोषित है और ऐसी सूची लाइसेंस के जारी होने के समय संलग्न की जाएगी।		10. 20	अध्याय-18	निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जायगा :— “155-क आयात प्रति- पूर्ति लाइसेंस नीचे पैरा 156 के अनुसार भारत से निर्यातित मयों के मूल्य के लिए जारी किए जाएंगे, चाहे ये तीसरे आयातक देश से उपर्युक्त पैरा 154 और 155 के अनुसार एक परियोजना के निष्पादन के लिए सम्पूरित किए गए हो या नहीं।”	
				11. 23	अध्याय-19	निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा :— “175-क उनके अपने नाम में अथवा उन्हें दूसरों द्वारा हस्तान्तरित आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस, जिनके मद्दे निर्यात सबन उपर्युक्त पैरा 175 में निहित सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, अहस्तान्तर- णीय रहेंगे और अब कभी ऐसा आवेदन किया जाएगा इस सम्बन्ध में एक पृष्ठांकन कराया जाएगा।”	
				12. 23	अध्याय-19 पैरा-176	प्रथम वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “ऐसे सभी प्रतिरिक्त लाइसेंस अहस्तांतरणीय होंगे।”	

1	2	3	4	1	2	3	4
13. 23	अध्याय-19 पैरा-176	इस पैरा के चौथे वाक्य (ऊपर यथा संशोधित) के स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :— “इस प्रयोजन के लिए, एक अकेली मद वह होगी जिसके लिए परिशिष्ट-5 और 7 में एक धलंग (मुख्य) प्रविष्टि संख्या है, सभी उप-प्रविष्टियाँ, यदि कोई हों, केवल एक अकेली मद का भाग मात्र समझी जाएंगी, और एक मद अकेली मद समझी जाएगी चाहे उसका उपयोग विभिन्न आकारों और प्रकारों में किया जाए, जैसे इस प्रयोजन के लिए बाल और रोलर बेयरिंग आदि, एक अकेली मद के रूप में समझी जाएगी।”					के सामने उल्लिखित टाइप संख्याएं अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत विशिष्ट-करणों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए उनमें सभी विभिन्न विनिर्माताओं की मदें और संघटक शामिल हैं।”
				22	58	परिशिष्ट-4	प्रविष्टि संख्या-77 को हटाया जाएगा।
				23	59	परिशिष्ट-5	प्रविष्टि संख्या-47 को हटाया जाएगा।
				24	62	परिशिष्ट-5	प्रविष्टि संख्या-237 को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— “पिकोलिन, बीटा और गामा।”
				25	63	परिशिष्ट-5	प्रविष्टि संख्या-270 को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :— “270 एक आपथलमिक ब्लैक्स (फ्यू-जड बाइफोकल ब्लैक्स और फ्लिन्ट बटनों के प्रतिरिक्त)।”
14. 32	परिशिष्ट-1	प्रविष्टि संख्या 13(38) को निम्न-प्रकार से पढ़ा जाएगा :— “कैलेंडरिंग मशीन (सभी प्रकार की, लेकिन पोशाकों/होजरी विनिर्माण को छोड़कर)।”		26	63	परिशिष्ट-5 प्रविष्टि सं० 296	विद्यमान विवरण में से शब्द “एंड एस बी आर” हटा दिए जाएंगे।
				27	66	परिशिष्ट-5	निम्नलिखित नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :— “489-क घड़ियों के संघटक (इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों सहित)।”
15. 39	परिशिष्ट-3	प्रविष्टि संख्या-76 को हटाया जाएगा।					
16. 39	परिशिष्ट-3	प्रविष्टि संख्या-123 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :— “123-क-कैम्फर।”					
17. 42	परिशिष्ट-3	प्रविष्टि संख्या-247 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :— “247-क फ्यूजड बाइ-फोकल ब्लैक्स एवं फ्लिन्ट बटन।”					
18	44	परिशिष्ट-3	प्रविष्टि संख्या -410 के सामने वाले शब्द “और गामा” हटाया जाएगा।	29	70	परिशिष्ट-5	परिशिष्ट के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— (3) “ताना” के संदर्भ में जहाँ कहीं समुचित हो “गट्स” शामिल किया जाएगा।
19	45	परिशिष्ट-3 प्रविष्टि सं०-503	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।				
20	56	परिशिष्ट-3	परिशिष्ट के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— “(3) “मूत” के संदर्भ में जहाँ कहीं उचित लगे “गट्स” शामिल किया जाएगा।”	30	72	परिशिष्ट-7	वर्तमान प्रविष्टि सं० 3 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा :— “3-क. बायलर/प्रेसर बैमम क्वालिटी विशिष्टकरणों की प्लेटें। 3-ख. डीप ड्राइंग और एक्स्ट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी स्टील शोट्स”
21	56	परिशिष्ट-3	परिशिष्ट के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाएगा :— “(4) उपर्युक्त प्रविष्टि संख्या-743 में सम्बन्धित मदों और संघटकों				

1	2	3	4	1	2	3	4
31	74	परिशिष्ट-8	<p>(1) प्रविष्टि सं० 58 के सामने की प्रविष्टि को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>“(1) बैकई प्लेट्स और (2) बॉयलर क्वालिटी प्रेशर वैसल विनिष्ठिकरणों को छोड़कर प्लेटे।”</p> <p>(2) प्रविष्टि सं० 64 हटा दी जाएगी।</p> <p>(3) वर्तमान प्रविष्टि सं० 59 (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—</p> <p>“(3) डीप ड्राइंग और एक्सट्रा डीप ड्राइंग क्वालिटी स्टील शॉट्स।”</p>				करने के लिए पात्र धार० ई० पी० लाइसेंसों के मद्दे परिशिष्ट 4 ( सम्पूर्ण निषिद्ध सूची ) में प्रवेशित किसी भी मद के आयात की अनुमति उन मामलों को छोड़कर नहीं दी जाएगी जिनमें यदि ऐसी सम्पूर्ण निषिद्ध मद कालम 4 या कालम 5 के अन्तर्गत या इस नीति के अन्तर्गत जारी किए गए अधिम लाइसेंस के मद्दे आयात के लिए विशेष रूप से वर्णित हो।”
32	75/76	परिशिष्ट-9 भेषज (पैरा 3)	<p>(1) मद सं० (5) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>“(5) डाक्सीसाइलिन बेस, इसके हाइड्रेट/हाइड्रॉक्साइड/क्लोराइड/कैल्शियम काम्प्लेक्स।”</p> <p>(2) मद सं० (15) को संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा :—</p> <p>“(15) टेढ़ा-साइक्लीन फॉस्फेट काम्प्लेक्स सहित टेढ़ा-साइक्लीन के साल्ट्स एंड डेरिवेटिव्स।”</p>	36	92	परिशिष्ट-17 क्रम सं० ए० 7	<p>कालम 5 में निम्नलिखित श्रम्भुक्ति जोड़ी जाएगी :—</p> <p>“(1) नाइलोन के निर्यात के सामने ( “नाइलाक”)—सल्फ लाकिय नट्स, स्टील लाक नट्स और व्हील नट्स, केवल सल्फर बियरिंग की कॉटिंग स्टील के लिए 30% प्रतिरिक्त आई० धार० उपलब्ध होगा।”</p>
33	79	परिशिष्ट-10	<p>शर्त सं० (4) में, अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :—</p> <p>“किन्तु अनुसंधान एवं विकास एकक, वैज्ञानिक अथवा अनुसंधान प्रयोग-शालाएं, इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोटोटाइप और पाइलट प्लांट उपकरण भी आयात कर सकते हैं।”</p>	37	93	परिशिष्ट-17 ए०-21	<p>(1) कालम 4 में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :—</p> <p>“(ब) ग्लासमेटिक टर्मिनल्स ”</p> <p>(2) कालम 5 में निम्नलिखित प्रतिरिक्त श्रम्भुक्ति जोड़ी जाएगी :—</p> <p>“(2) ग्लासमेटिक टर्मिनल की आयात प्रतिपूर्ति की अनुमति देखिए कालम 4 की मद (ब) केवल प्रशीत कम्प्रेसर या ऐसे कम्प्रे-शरो वाले वातानुकूलन प्रशीतन उपकरण के निर्यात के मद्दे दी जाएगी।”</p>
34	79	परिशिष्ट-10	<p>निम्नलिखित प्रतिरिक्त शर्त जोड़ी जाएगी :—</p> <p>“(18) रोगानुनाशक महित कीटनाशकों के मामले में, संबंधित वास्तविक उपयोगिता ( औद्योगिक ) प्रत्येक साल की निकासी के साल त्रिनों के भीतर कृषि-विभाग ( पौधा संरक्षण प्रभाग ), नई दिल्ली को आयातित मदों के व्योरे, मात्रा एवं उनके लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की सूचना देगे।”</p>	38	93-94	परिशिष्ट-17 सं० ए-22	<p>जो इस प्रकार निर्यात किए गए प्रति कम्प्रेसर केवल ऐसे एक टर्मिनल और लाइसेंस के मूल्य के भीतर सीमित होगी।</p> <p>2 से 5 तक के कालम में निम्नलिखित नई प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार की जाएगी :—</p>
35	92	परिशिष्ट-17	<p>पंजोक्त निर्यातकों की आयात शर्त के विवरण के प्रारम्भ में निम्न-लिखित मया पैदा जोड़ा जाएगा :—</p> <p>“5. नीचे कामम 4 या 5 के अनुसार “विशेष मदों” का आयात</p>				<p>(4) प्लेटिनम/ 2% (1) प्लेटि- } आयात प्रतिपूर्ति पैलेडियम/वार्दी मिश्रधातु } मिश्रित } आयात के मिश्रधातु अथवा (2) पैले- } साथ निर्यातित वार्दी/द्विधातु डिमम } उत्पाद के कन्टेनर्स (3) तांबा } विनिर्माता उपरिष्कृत } का अधिप्राप</p>

1	2	3	4	1	2	3	4
		(4) निकल बजिन/स्प्रेप (5) कैडमियम आक्साइड }	संलग्न होता चाहिए कि कालम 4 में दी गई मद (बैं) उसके विनिर्माण में उपयोग की गई हैं। लाइसेंस जारी करते समय उक्त सूची संलग्न की जाएगी।"	43	96 परिशिष्ट-17 क्रम सं० ए-70	कालम 5 के लिए विद्यमान अभ्युक्ति (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :— “(1) आयात प्रतिपूर्ति के लिए अनुमेय निषिद्ध/सरणीबद्ध मद, लेकिन हार्ड स्पीड स्टील को छोड़कर केवल वही होंगी जो उत्पाद के विनिर्माता द्वारा घोषित निर्यातित उत्पाद में उपयोग की जाती हों। इस संबंध में ऐसे विनिर्माताओं का घोषणापत्र आयात आवेदन पत्र के साथ होना चाहिए और वह लाइसेंस जारी करते समय उससे संलग्न किया जाएगा।”	
39	95 परिशिष्ट-17	कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— क्रम सं० ए-36(1) “(2) इस उत्पाद के लिए पंजीकरण प्राधिकारी प्लास्टिक एवं विनोनियम नियमित संवर्धन परिषद होगी।”					
40	95 परिशिष्ट-17	(1) कालम 4 में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :— क्रम सं० ए-36(3) “(त) आइसोमैग्नेटिक टेप (2) कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— “(2) आइसो मैग्नेटिक टेप के आयात की अनुमति देखिए— कालम (4) की मद (के), केवल टेप रिकार्डरों और उनके संयोजन के मद्दे लाइसेंस के समस्त मूल्य के भीतर दी जाएगी जो निर्यात किए गए ऐसे प्रत्येक उत्पाद पर सी-30 कैसेट्स के एक नग (या रील में या अन्य आकार में वही लम्बाई) तक सीमित होगी।”		44	99 परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी-16.2	(1) कालम 4 में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :— “(क्यू) थालिक एनहाईड्राइड।” (2) कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— “(2) कालम 4 में मद (क्यू) के अन्तर्गत थैलिक एनहाईड्राइड का आयात ऐंथाक्विमोन और इसके निष्काशन के निर्यात के मद्दे अनुमेय होगा।”	
				45	100 परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी०-20.8	(1) कालम 2 में धाई धार की दर 5% से 8% तक बढ़ा दी जाएगी। (2) कालम 4 में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी :— (झ) टर्पेनाइल एसीटेट (ञ) बेंटीवर एसीटेट (ट) पैराकीन तरल (ठ) सैफरन (ड) निषेध सूची में दर्शाई गई कोई अन्य मद।” (3) कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— “(1)” आयात प्रतिपूर्ति के लिए अनुमित निषिद्ध मदें केवल वही होंगी जो कि उस उत्पाद के विनिर्माता द्वारा घोषित निर्यातित उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग में आती हों। इस संबंध में ऐसे विनिर्माता की घोषणा लाइसेंस आवेदनपत्र के साथ होनी चाहिए और जब यह जारी होता है तो लाइसेंस के साथ संलग्न होगी।	
41	95 परिशिष्ट-17	“इस्पात” शब्द के बाद लगा हुआ “कोमा” हटा दिया जाएगा। क्रम सं० ए०-51, कालम 2					
42	95 परिशिष्ट-17	कालम 5 में विद्यमान अभ्युक्ति सं० (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— “(1) आयात प्रतिपूर्ति के लिए अनुमेय निषिद्ध/सरणीबद्ध मद, लेकिन हार्ड स्पीड स्टील को छोड़कर केवल वही होंगी जो उत्पाद के विनिर्माता द्वारा घोषित निर्यातित उत्पाद में उपयोग की जाती हों। इस संबंध में ऐसे विनिर्माताओं का घोषणापत्र आयात आवेदन पत्र के साथ होना चाहिए और वह लाइसेंस जारी करते समय उससे संलग्न किया जाएगा।”					

1	2	3	4	1	2	3	4
46.	100	परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी० 20.10	कालम 4 में मद (ब) के सामने प्रशंसित 20% का अंकित मूल्य प्रतिबन्ध हटाया जाएगा।	53.	103	परिशिष्ट-17 क्रम सं० सी० 11.4	(1) कालम 3 में निर्धारित आई धार की दर 55% तक बढ़ा दी जाएगी:— (2) कालम 4 में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी : “(इ) सभी प्रकार के पी० बी० सी० बमड़े के बन्ध । (ब) पी० बी० सी० शीट्स।”
47.	100	परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी० 20.15	कालम 4 में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी:— “(घ) वेनाडियम पेन्टाक्साइड (केटासिटिड ग्रेड) (ङ) सी धार सी ए शीट्स (च) एच डी पी ई मॉलिंग पाउडर ”	54.	103	परिशिष्ट-17	क्रम सं० सी० 11.4 के पश्चात् निम्नलिखित नई क्रम सं० कालम 1 से 5 तक की प्रविष्टियों के साथ नई क्र० सं० जोड़ी जाएगी :—
48.	101	परिशिष्ट-17 क्रम सं० बी० 60	कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी:— “(1) सजावटी प्लाईवुड उत्पाद के मदों सजावटी कागज की अनुमति होगी।”				
49.	102	परिशिष्ट-17 श्रेणी सं० 3 रबड़ की वस्तुएं, कालम 4	इस श्रेणी के अन्तर्गत कालम 4 में प्रदत्त मद “एस बी धार” हटा दी जाएगी।			सी० 12 ग्रामोफोन रिकार्ड एवं उप-साधिका	5% (क) लिथोपॉजिटिक्स नेगेटिक्स/कलर/ ट्रान्सपेरेंसीज (ख) ब्लैक लिंकर रिकार्डिंग्स (ग) प्रि-रिकार्डिंग टेप्स 20% (घ) व्यवसायिक चुम्ब- कीय टेप (ङ) एस-निकल (च) फटिंग स्टायली।
50.	103	परिशिष्ट-17 क्रम सं० सी-7	कालम 2 में “फाउन्टेन पेन, बाल प्लाइड पेन” शब्दों के लिए “फाउन्टेन/ बाल प्लाइड पेन और उनके पुर्जों” शब्दों की प्रतिस्थापित किया जाएगा।				
51.	103	परिशिष्ट-17 क्रम सं० सी० 8.1	(1) कालम 4 में मद (ब) का विवरण निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा “(ब) एकोनिक प्लास्टिक शीट्स/ग्रॉफ कट्स” (2) कालम 4 में मद (ब) और और (ङ) के सामने दर्शाई गई 50% का अंकित मूल्य प्रतिबन्ध को हटा दिया जाएगा (3) कालम 4 में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी :— (ब) सैल्यूज एसीटेड मोलिंग पाउडर/ग्रैनुलस/शीट्स ग्रॉफ कट/शीट कटिंग/ स्कैम।” (ङ) सैल्यूज एसीटेड ग्रेटी- रेट ग्रॉफ कट्स/कटिंग्स”	55.	104	परिशिष्ट-17 क्रम सं० 14	कालम 5 में अभ्युक्ति (1) के स्थान पर निम्नलिखित अभ्युक्ति प्रति- स्थापित की जाएगी :— “(1) रोल्ल गोल्ल और गोल्ल फिल्ल बायसे/स्ट्रिप्स/ट्यूब्स के आयात के लिए 35% की दर पर अतिरिक्त प्रतिपूर्ति रोल्ल गोल्ल स्पेक्टैकिल्ल फ्रेम्स/स्पेक्टैकिल्ल के मदों दी जाएगी, परन्तु ऐसे मामलों में कालम 4 में मद (ग) और (ब) के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
52.	103	परिशिष्ट-17 सी० 11.3	कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी:— “(1) केवल पी बी सी मॉडिफाइड एक्सट्रुडिड माल के नियम के मदों वैलिक प्लास्टिमाइजर्स के आयात के लिए 15% के अतिरिक्त आई धार की अनुमति होगी।”	56.	104	परिशिष्ट-17 क्रम सं० ग. 15	कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी : “(1) केवल क्यूबिक प्लास्टिमाइजर्स के आयात के लिए 20% की अतिरिक्त आई धार की अनुमति दी जाएगी।”
				57.	106	परिशिष्ट-17 ब.मछली और मछली उत्पाद	उत्पाद भूप के सामने कालम 5 में निम्नलिखित सामान्य दिव्यणी जोड़ी जाएगी : “(1) जिन मामलों में कालम 4 में टिन प्लेट ग्राहम ओ टी एस कवालिटी के आयात की अनुमति देना हो उनमें लाइसेंसधारी

1	2	3	4	1	2	3	4
			लाइसेंस के मूल्य के भीतर ओ टी एस कन्टेनर्स का भी आयात कर सकता है ।”				50% के अधिक मूल्य प्रतिबंध के सहित हो । लेकिन यदि किए गए उत्पाद में इन मदों में से केवल एक ही सब अर्थात् होरे, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न या धमेली या परिष्कृत मोती ही हो तो अधिक मूल्य प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।”
58.	106	परिशिष्ट-17 क्रम सं० ब.1.3	कालम 2 में निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाएगा :— “अन्य सभी (मेक के टागों सहित, परन्तु सूखी मछली, मछली के जबड़ों, शार्क फिन्स और मत्स्य पूर्ण को छोड़कर) ।”	63	119	परिशिष्ट-17 क्रम सं० ब्यू, 5	कालम 4 में निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी :— “(ख) जंगवरोधी इस्पात सकल ।”
59	106	परिशिष्ट-17 छ, खाद्य	उत्पाद ग्रुप के सामने कालम 5 में निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— “(1) जिन सामानों में कालम 4 टिन प्लेट ब्राह्म ओ टी एस क्वालिटी के आयात की अनुमति देता है उनमें लाइसेंसधारी लाइसेंस के मूल्य के भीतर ओ टी एस कन्टेनर्स का आयात भी कर सकता है ।”	64.	155	परिशिष्ट-26 क्रम सं० 5	इस क्रम सं० के सामने प्रदर्शित “50 मि० मी० से अधिक व्यास” शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे :— “मान्दरिक व्यास 10 मि० मी० और इससे अधिक ।”
60.	109	परिशिष्ट-17 क्रम सं० के, 4	कालम 4 में (ग) के सामने 20% के अधिक मूल्य प्रतिबंध को 50% किया जायेगा ।	65.	155	परिशिष्ट-26	प्रविष्टि सं० 55 संशोधित करके निम्नलिखित अनुसार पढ़ी जाएगी :— “पिकोलिन, बोटा और गामा”
61.	110	परिशिष्ट-17 क्रम सं० के, 7	(1) कालम 2 में विद्यमान निर्यात उत्पाद की क्रम सं० “(1) की जाएगी । (2) कालम 2 से 5 तक में प्रविष्टियों के साथ निम्नलिखित नई उप-क्रम सं० जोड़ी जाएगी :— “(2) ब्रीड, यार्न, फेब्रिक और बनी हुई वस्तुएं जिनमें कशीदाकारी शामिल है, जिन में 50% से कम परन्तु न्यूनतम 20 तक वजन में प्राकृतिक रेशम की मात्रा हो	66.	156	परिशिष्ट-26	निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी :— “90 ए० बी० एस० मोस्टिग पाउडर । 91. कार्बन ग्लास इलेक्ट्रो-प्राफिटार्ड हाई कार्बन और रेजिन बॉन्ड कार्बन :”
			वही जो क्रम सं० के० 7 (1) के सामने है ।	67.	156	परिशिष्ट-26	इस परिशिष्ट के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :— “टिप्पणी : (1) उपर्युक्त प्रविष्टि सं० 16 में संदर्भित सामान्य प्रविष्टियां परिशिष्ट 5 में ऐसी प्रविष्टियों तक सीमित होगी जो सामान्य रूप में “संघटकों” का उल्लेख करती हैं अर्थात् इस रूप में किसी अलग संघटक का विवरण दिए बिना या उल्लेख किए बिना —उदाहरणार्थ प्रविष्टि सं० 348, 409, 431, 477, 488, 490 या 492 (4), परन्तु प्रविष्टि सं० 487, 493, 494 या 495 नहीं ।”
62.	116/117	परिशिष्ट-17 क्रम सं० पी० 4	कालम 5 में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ी जाएगी :— “(5) बिना जड़े और बिना कटे हीरों, बहुमूल्य और कम बहुमूल्य बिना जड़े और बिना कटे रत्नों, बिना जड़े धमेली या परिष्कृत मोतियों की कालम 4 में निर्यात मूल्य सीमाओं के भीतर प्रति-पूति की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब कि निर्यात किए गए उत्पाद में क्रमशः हीरों बहुमूल्य और कम बहुमूल्य रत्नों और मोतियों की मात्रा हममें से प्रत्येक के लिए लागू				आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट-17 में किए गए परन्तुकों के संबंध में इस सार्वजनिक सूचना में निहित संशोधन 1-4-1978 से अथवा इसके पश्चात् किए गए नियतों के संबंध में लागू होंगे, इनमें उन आयात प्रतिपूति लाइसेंसों के मामले शामिल नहीं होंगे जो पहले ही ऐसी मदों के साथ जारी किए गए हैं जो अब कालम 4 से हटा दी गई हैं । क्रम संख्या 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29, और 67 में किए गए संशोधन भी 1-4-1978 के प्रभावी होंगे । (का० बें० घोषात्रि) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND  
CO-OPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO : 2 ITC (PN)/79

New Delhi, the 3rd January, 1979

Subject : Import Policy, 1978-79.

F. No. IPC/3/15/78.—Attention is invited to the Import Policy, 1978-79, published under the Department of Commerce Public Notice, No. 22-ITC(PN)/78, dated the 3rd April, 1978, as amended from time to time.

2. The following amendments shall be made at the appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import Policy, 1978-79	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10	Chapter 10 Para 62	(i) The following words shall be added to the first sentence, at the end thereof : "and Appendix 9."  (ii) The words "and the importing agencies referred to in para 73" appearing in the third sentence shall be deleted.
2.	10	Chapter 10	In para 64 the following shall be inserted at the end of the first sentence :— "Where a Co-operative Society or an Association is authorised under the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79, to register the requirements on behalf of its member Actual Users, the earnest money shall be still calculated likewise, i.e. for the total quantity of material so registered".
3.	13	Chapter 16 Para 87	The following shall be added under "(e) Teaching aids" :— "(iv) Map gloves"
4.	13	Chapter 16 Para 89	For the figure "2,000" appearing in the Sub-para (v), the figure "200" shall be substituted.
5.	14	Chapter 16 Para 95	The following sentence shall be added at the end :— "The concerned Airlines shall, within seven days of the clearance of each such consignment intimate to the Director General of Civil Aviation, New Delhi, the particulars of the items

1 9 3 4

imported, the quantity and c.i.f. value thereof and shall also maintain a register of their inventory/utilisation in such manner as he may desire. All these shall be open for inspection by the Chief Controller of imports and Exports at any time."

6. 15 Chapter 17 The following new para shall be inserted :—

"112—A. Customs Clearance Permits will also be issued for the import of :

- (a) Video tapes covering technical applications of electronic equipment, theoretical discussions, service instructions, parts catalogues etc., and (b) Computer tapes consisting of programme software, trouble shooting diagnostics, other data processing information, servicing instructions, etc., required by Actual Users (Industrial) and Indian agents of foreign suppliers of Capital, Goods, for instructional purposes, against purchase orders of such items."

7. 16 Chapter 18 After Para 123, the following para shall be inserted :—

"123—A. Import replenishment licences will also be valid for the import of consumables upto 10% of the value of the licence and within its overall value. The relative licence application should be accompanied by the list of consumables used in the manufacture of the product exported, as declared by the manufacturer of that product, and such list will be attached to the licence when it is issued."

8. 16 Chapter 18 Para 125 The following words shall be inserted at the beginning of the second sentence :—  
"Except for cases covered by Paras 175-A and 176,"



(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
9.	16	Chapter 18 para 126	The following sentence shall be added at the end of this Para :— “Accordingly, clearance of the goods covered by a REP licence issued against exports made on or after 1-4-1978, under this policy, will be allowed by the Customs authorities on the production by the transferee of only the document of transfer of the licence concerned in his name”.	14.	32	Appendix 1	and roller bearings, etc., shall be treated as a single item for this purpose.” Entry No. 13(38) shall be amended to read as under :— “Calendering machine (all types, excluding, however, those for garment/hosiery manufacture).”
10.	20	Chapter 18	The following new para shall be inserted :— “155—A. Import replenishment licences will be issued in accordance with para 156 hereunder for the value of the items exported from India, whether or not these are supplemented by third country imports for executing a project in accordance with paras 154 and above.	15.	39	Appendix 3	Entry No. 76 shall be deleted.
11.	23	Chapter 19	The following new para shall be inserted :— “175—A. Import replenishment licences issued in their own names or transferred to them by others, against which Export Houses wish to take advantage of the facility provided in para 175 above, shall be non-transferable and an endorsement to this effect shall be (got) made whenever such a request is made.”	16.	39	Appendix 3	After Entry No. 123, the following entry shall be inserted :— “123 —A. Camphor.”
12.	23	Chapter 19 Para 176	The following shall be inserted after the first sentence :— “All such additional licences shall be non-transferable.”	17.	4.	Appendix 3	After Entry No. 247, the following entry shall be inserted :— “247—A. Fused bifocal blanks and flint buttons.”
13.	23	Chapter 19 Para 176	The fourth sentence of this Para shall be substituted by the following :— “For this purpose, a single item shall be one for which a separate (main) Entry number appears in Appendices 5 & 7, all sub-entries, if any, thereunder shall be treated as part of the said single item only; also, an item will be treated as a single item even if it may be used in various sizes and specifications e.g. ball	18.	44	Appendix 3	The words “and Gamma” appearing against Entry No 410 shall be deleted.
				19.	45	Appendix 3	This entry shall be deleted. Entry No. 502
				20.	56	Appendix 3	The following note shall be added at the end of the Appendix :— “(3) References to “yarn” will wherever appropriate include “Guts” as well.”
				21.	56	Appendix 3	The following note shall be added at the end of the Appendix :— “(4) The Type Nos. set down against the respective items and components in Entry No. 743 above represent internationally accepted specifications and would, therefore, include all such items and components of different manufactures.”
				22.	58	Appendix 4	Entry No. 77 shall be deleted.
				23.	59	Appendix 5	Entry No. 47 shall be deleted.
				24.	62	Appendix 5	Entry No. 237 shall be amended to read as under :— “Picofine, Beta and Gamma.”
				25.	63	Appendix 5	Entry No. 270 shall be amended to read as under :— “270. Rough Ophthalmic blanks excluding fused bifocal blanks and flint buttons.”
				26.	63	Appendix 5	From the existing description, the words “and SBR” shall be deleted. Entry No. 296

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
27.	66	Appendix 5	The following new Entry shall be inserted :— “489—A. Components of watches (including electronic watches).”	33	79	Appendix 10	In condition No. (4), the following sentence shall be added at the end:— “But Research and Development units, scientific or research laboratories, may also import under this provision, prototypes and pilot plant equipment.”
28.	70	Appendix 5	The following note shall be added at the end of the list of restricted items in this Appendix :— “(2) Entry No. 497 above would not apply to an Actual User (Industrial) for meeting the requirements of his own manufacturing programme in terms of the relevant industrial licence or registration certificate.”	34	79	Appendix 10	The following additional condition shall be inserted:— “(18) In the case of insecticides including pesticides and weedicides, the Actual User (Industrial) concerned shall, within seven days of the clearance of each consignment, intimate to the Department of Agriculture (Plant Protection Division), New Delhi, particulars of the items imported, the quantity and the c.i.f. value thereof.”
29.	70	Appendix 5	The following note shall be added at the end of the Appendix :— “(3) Reference to ‘yarn’ will wherever appropriate include ‘Guts’ as well.”				
30.	72	Appendix 7	After the existing Entry No. 3 the following new entry shall be inserted :— “3—A. Plates of boiler/pressure vessel quality specifications. 3—B. Deep drawing and extra deep drawing quality steel sheets.”	35.	92	Appendix 17	The following new Para shall be added at the beginning of the Statement of Import Policy for Registered Exporters:— “5. No import of an item appearing in Appendix 4 (Absolute Banned List) shall be allowed against REP licences eligible to import ‘banned items’ in accordance with Column 4 or Column 5 hereunder, except if such Absolute Banned Item is specifically described for import either under Column 4 or under Column 5 or against an Advance licence issued under this Policy.”
31.	74	Appendix 8	(i) The description against Entry No. 58 shall be amended to read as under— “Plates excluding (i) chequered plates and (ii) plates to boiler/pressure vessel quality specification.” (ii) Entry No. 64 shall be deleted. (iii) After the existing entry No. 59(ii), the following new entry shall be inserted:— “(iii) Deep drawing and extra deep drawing quality steel sheets.”				
32	75-76	Appendix 9 Drugs (Para 3)	(i) Item No. (5) shall be amended to read as under:— “(5) Doxycycline Base, its Hydrate/Hyclate/Hydrochloride/Calcium complex.” (ii) Item No. (15) shall be amended to read as under:— “(15) Salts and derivatives of Tetracycline including Tetracycline Phosphate complex.”	36.	92	Appendix 17 S.No.A.7	The following Remark shall be added in Column 5:— “(1) Against exports of Nylon insert (“Nyloc”)—self-locking nuts, steel lock nuts and wheel nuts, an additional 30% I.R. shall be available for import of sulphur bearing free cutting steel only.”

1.	2.	3.	4.
37.	93	Appendix 17 ----- A.21	(i) In Column 4, the following item shall be inserted:  “(e) Glassmetic terminals”  (ii) In Column 5, the following additional Remark shall be inserted:  “(2) Glassmetic terminals will be allowed for import replenishment vide item (c) of Column 4, only against exports of refrigeration compressors or Airconditioning refrigeration equipment containing such compressors, limited to one such terminal per compressor so exported and within the value of the licence.”
38.	93-94	Appendix 17 ----- A-22	The following new entry shall be made in the Columns 4 to 5 as under:-  1                2                3                4                5 ----- (iv) Electrical contracts made of platinum/Palladium/Silver alloy or Silver/-Bimetal contracts. 2%     (i) Platinum Import replenishment applications should be accompanied by the declaration of the manufacturer of the virgin/product exported as to the items(s) in Column 4 used in its manufacture. The said list will be attached to the licence when it is issued.” (ii) Palladium (iii) Copper unwrought (iv) Nickel scrap (v) Cadmium Oxide.
39.	95	Appendix 17 ----- Sl.No.A.36(i)	In Col. 5, the following Remark shall be added:- “(2) The Registering Authority for this product will be the Plastics and Linoleum Export Promotion Council.”
40.	95	Appendix 17 ----- Sl.No.A.36(iii)	(i) In Col.4, the following item shall be added:- “(k) Audio Magnetic Tape.”  (ii) In Col.5, the following Remark shall be added:- “(2) The import of Audio Magnetic Tape vide item (k) in Col.4 shall

be allowed only against the export of tape recorders and combination thereof, within the overall value of the licence and limited to one number of C-30 Cassette (or the same length in reel or other form) per each one price of such product exported.”

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	95	Appendix 17 ----- Sl.No.A-51, Col.2	The “comma” appearing after the word “steel” shall be deleted.
42.	95	Appendix 17 ----- Al.No.A.64	The existing Remark No.(I) in Col.5 shall be substituted by the following:- “(1) The Banned/Canalised items, excluding however, high speed steel, allowed for import replenishment shall only be those used in the manufacture of the product exported, as declared by the manufacturer of that product. The declaration of such manufacturer in this regard should accompany the licence application and will be attached to the licence when it is issued.”
43.	96	Appendix 17 ----- Sl.No.A.70	The existing Remark (1) in Col. 5 shall be substituted by the following:- *(1) The Banned/Canalised items, excluding, however, hige speed steel, allowed for import replenishment shall only be those used in the manufacture of the product exported, as declared by the manufacturer of that product. The declaration of such manufacturer in this regard should accompany the import application and will be attached to the licence when it is issued.”
44.	99	Appendix 17 ----- Sl.No.B.16.2	(i) In Col.4, the following item shall be added:- “(q) Phthalic Anhydride.” (ii) The following Remark shall be added in Col.5:- (2) Import of Phthalic Anhydride, under item (q) in Col.4 shall be allowed only against the export of Anthraquinone and its derivatives.”

(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4
45.	100	Appendix 17 Sl.No.B.20.8	(i) In Column 3, the rate of IR shall be raised from 5% to 8%.  (ii) In Column 4, the following items shall be added: “(i) Terpenyle Acetate, (j) Vetiver Acetate, (k) Paraffin liquid, (l) Saffron, (m) Any other item appearing in the banned list.” (iii) In Column 5, the following Remark shall be inserted:— “(1) The Banned items allowed for import replenishment shall only be those used in the manufacture of the product exported, as declared by the manufacturer of that product. The declaration of such manufacturer in this regard should accompany the licence application and will be attached to the licence when it is issued.”	51.	103	Appendix 17 Sl. No. C.8.1.	(i) In Col. 4, the description of the item (d) shall be amended to read as under:—  “(d) Acrylic plastic sheets/ off cuts.”  (ii) The face value restriction of 50% appearing against items (d) and (e) in Col. 4 shall be deleted.  (iii) In Col. 4, the following items shall be added :  “(f) Cellulose Acetate moulding powder/ granules/sheet off-cuts/sheet cuttings/ scrap.”  (g) Cellulose Acetate Butyrate off-cuts/cuttings.”
46.	100	Appendix 17 Sl.No.B.20.10	In Column 4, the face value restriction of 20% appearing against item (d) shall be deleted.	52.	103	Appendix 17 C.11.3	The following Remark shall be inserted in Column 5 :— “(1) An additional 15% IR will be allowed for the import of phthalic plasticisers against only the exports of PVC moulded/ extruded goods.”
47.	100	Appendix 17 Sl.No.B.20.15	In Column 4, the following item shall be added:— “(d) Vanadium Pentoxide (catalyst grade). (e) CRCA Sheets. (f) HDPE moulding powder.”	53.	103	Appendix 17 Sl. No.C.11.4	(i) The rate of I.R. Set down in Col. 3 shall be raised to 55%. (ii) The following items shall be added to the Col. 4:— “(e) P.V.C. leather cloth of all sorts; (f) P.V.C. sheets.”
48.	101	Appendix 17 Sl.No.B.66	In Column 5, the following Remark shall be inserted:— “(1) Decorative paper will also be allowed against decorative plywood products.”	54.	103	Appendix 17	After S. No. 11.4 the following new Sl No., with entries in Columns 1 to 5, shall be inserted:—
49.	102	Appendix 17 Category No. XII —Rubber manufacturers.	The item “SBR” wherever appearing under this Category shall be deleted.			12	Gramophone records and accessories.
50.	103	Appendix 17 Sl.No.C.7	In Column 2, for the words “Fountain pens, ball point pens”, the words “Fountain/hall/point pens and parts thereof” shall be substituted.”			5	(a) Litho Positives/ Negatives/Colour Transparencies.  (b) Blank Lacquer Recording, (c) Pre-recorded Tapes (20%), (d) Processional Magnetic Tape. (e) S-Nickel. (f) Cutting stylii.”

1	2	3	4	1	2	3	4
55.	104	Appendix 17 Sl. No. C. 14.	In Col. 5, Remark (1) shall be substituted as under :— “(1) Additional replenishment at 35% will be given for import of rolled gold and gold filled wires/trips/tubes, against export of rolled gold spectacle frames/spectacles, but in such cases, import of items (c) and (d) in Col. 4 will not be allowed.”	62.	116-117	Appendix 17 Sl. No. P.4.	In Col. 5, the following Remark shall be added :— “(5) Replenishment within the value limits indicated in Col. 4 of diamonds unset or uncut, precious or semi-precious stones, unset and uncut, real or cultured pearls unset shall be allowed only if the product exported contained diamonds, precious or semi-precious stones and pearls respectively, with the face value restriction of 50 being applicable to each of them. However, if the product exported contained only one of the items, namely, diamonds or precious or semi-precious stones or real or cultured pearls, the face value restriction will not apply.”
56.	104	Appendix 17 Sl. No. C.15	The following Remark shall be inserted in Column 5:— “(1) An additional IR of 20% will be allowed for the import of phthalic plasticisers only.”	63.	119	Appendix 17 Sl. No. Q.5	In Col 4, the following item shall be added :— “(b) Stainless Steel circles.”
57.	106	Appendix 17 F. Fish and Fish Products.	The following General Note shall be inserted in Col. 5. against the product group :— “(1) In cases where the Col. 4 permits the import of Tin plate prime OTS Quality, the licenceholder may also import OTS containers within the value of the licence.”	64.	155	Appendix 26 Sl. No. 5	For the words “dia above 50mm” appearing against this S. No., the following words shall be substituted:— “internal diameter 10mm and above.”
58.	106	Appendix 17 Sl. No. F.1.3	In Col. 2, the description of the export product shall be amended to read as under :— “All others (including frog legs, but excluding dried fish, fishmans, sharkfins and fish meal).”	65.	155	Appendix 26	Entry No. 55 will be amended to read as under :— “Picoline, Beta and Gamma.”
59.	106	Appendix 17 G. Foods.	The following General Note shall be inserted in Col. 5 against the product group :— “(1) In cases where the Col. 5 permits the import of Tin plate prime OTS quality, the licenceholder may also import OTS containers within the value of the licence.”	66.	156	Appendix 26	The following entries shall be added:— “90. A.B.S. Moulding Powder. 91. Carbon Blocks electrographitised, hard carbons and resin bonded carbons.”
60.	109	Appendix 17 Sl. No. K.4	In Col 4, the face value restriction of 20% against (c) shall be raised to 50%.	67.	156	Appendix 26	The following Note shall be inserted at the end of this Appendix:— “Note: (1) The generic entries referred to in Entry No. 16 above will be limited to such entries in Appendix 5 as refer to ‘components’ in general i.e., without describing or mentioning any individual component as such—for example, Entry Nos. 348, 409, 431, 477, 488, 490 or 492(4), but not Entry Nos. 487, 493, 494 or 495.”
61.	110	Appendix 17 Sl. No. K.7	(i) In Col. 2, the existing export product shall be serially numbered as “(i)”. (ii) The following new sub-Serial Number, with entries in Cols. 2 to 5, shall be inserted :—				
	11	2	3	4			
	“(ii)	Thread, yarn fabrics, and made-up articles, including embroidered, containing less than 50% but not less than 20% natural silk by weight.	10% (a) Same as against Sl. No.K.7(i)				

3. The amendments contained in this Public Notice with regard to the provisions made in Appendix 17 of the Import Policy, 1978-79 will be effective in respect of exports made on or after 1-4-1978, except in the case of import replenishment licences which have already been issued with such items as are now deleted from the column 4. The amendments at S. Nos. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 29 and 67 will also be effective from 1-4-1978.

K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports

